



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, अगस्त 1—अगस्त 7, 2004, शनिवार/श्रावण 10—श्रावण 16, 1926
No. 16] NEW DELHI, AUGUST 1—AUGUST 7, 2004, SATURDAY/SRAVANA 10—SRAVANA 16, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2004

का. नि.आ. 110.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमान द्वारा कर्नल राजीव ककरा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, वेलिंगटन में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा.सं. 19/28/वेलिंगटन/सी/डीई/2001/3089/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13th July, 2004

~ S.R.O. 110.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Wellington by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of resignation of Col. Rajeev Kakra.

[F. No. 19/28/Wellington/C/DE/2001/3089/D (Q & C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2004

का. नि.आ. 111.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर वेलिंगटन ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल दिवाकर डोगरा को छावनी बोर्ड, वेलिंगटन का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल राजीव ककरा के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा.सं. 19/28/वेलिंगटन/सी/डीई/2001/3089/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2004

S.R.O. 111.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Diwaker Dogra has been nominated as a member of the Cantonment Board, Wellington by the Station Commander, Wellington in exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. Rajeev Kakra whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/28/Wellington/C/DE/2001/3089/D (Q & C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2004

का.नि.आ. 112.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान द्वारा ले. कर्नल डी. एस. जसरोटिया को त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, डलहौजी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/62/डलहौजी/सी/डीई/2001/3087/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2004

S.R.O. 112.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Dalhousie by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Northern Command of resignation of Lt. Col. D. S. Jasrotia.

[F. No. 19/62/Dalhousie/C/DE/2001/3087/D (Q & C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2004

का.नि.आ. 113.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर डलहौजी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ले. कर्नल आई. डी. शर्मा को छावनी बोर्ड, डलहौजी का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले. कर्नल डी. एस. जसरोटिया के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/62/डलहौजी/सी/डीई/2001/3087/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2004

S.R.O. 113.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Lt. Col. I.D. Sharma has been nominated as a member of the Cantonment Board, Dalhousie by the Station Commander, Dalhousie in exercise of the powers conferred under clause (e) of sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. D.S. Jasrotia whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/62/Dalhousie/C/DE/2001/3087/D (Q & C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2004

का.नि.आ. 114.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमान द्वारा मेजर आर. पी. एस. मनकोटिया का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, कामठी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/35/कामठी/सी/डीई/2001/3088/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2004

S.R.O. 114.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Kamptee by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of resignation of Major R.P.S. Mankotia.

[F. No. 19/35/Kamptee/C/DE/2001/3088/D (Q & C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2004

का.नि.आ. 115.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, कामठी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेजर डी. वी. सिंह को छावनी बोर्ड, कामठी का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन मेजर आर. पी. एस. मनकोटिया के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/35/कामठी/सी/डीई/2001/3088/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2004

S.R.O. 115.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Major D.V. Singh has been nominated as a member of the Cantonment Board, Kamptee by the Station Commander, Kamptee in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Major R.P.S. Mankotia whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/35/Kamptee/C/DE/2001/3088/D (Q & C)]

D.R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2004

का. नि. आ. 116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मिलिट्री इंजीनियर सेवा [गैर-औद्योगिक समूह III समूह IV पद] भर्ती नियम 1971 के जहाँ तक उनका संबंध खानसामा चौकीदार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें अधिक्रमण करने से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, मिलिट्री इंजीनियर सेवा में [खानसामा चौकीदार] के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मिलिट्री इंजीनियर सेवा (खानसामा चौकीदार) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
1. खानसामा चौकीदार	141* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अननुसचिवीय) गैर-औद्योगिक	3050-75-3950-80- 4590 रुपये	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सर्वो का सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा सिविल सेवा के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7	8
लागू नहीं होता	<p>18 से 25 वर्ष</p> <ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/और अन्य विशेष वर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अन्य कोई संचयी छूट दी जा सकती है। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। 	<p>आवश्यक :— कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।</p> <p>शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए। चौकीदार के कर्तव्यों से सुपरिचित होना चाहिए। रसोई और शाकाहारी तथा मांसाहारी व्यजन बनाने में निपुण होना चाहिए। किचन रसोईघर में प्रयोग होने वाले आधुनिक विद्युत और अन्य उपकरणों से परिचित होना चाहिए।</p> <p>1. खाना पकाने के समय स्वास्थ्य और एंटीफ्लाई पूर्व सावधानी की जानकारी होनी चाहिए।</p> <p>वांछनीय : समुचित व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव।</p>
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता भर्ती की आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशत पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा
9	10	11
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियाँ/श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
लागू नहीं होता	कमाण्डर कार्य इंजीनियर स्तर पर समूह [घ] (विभागीय प्रोन्नति समिति [पुष्टि के लिए] जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।

1. कमाण्डर कार्य इंजीनियर या उसका नाम-
निदेशिती जो कार्यकारी इंजीनियर
की पंक्ति के नीचे का न हो —अध्यक्ष
2. सहायक कार्यकारी इंजीनियर/ —सदस्य
सहायक इंजीनियर/बैराक भंडार
अधिकारी या समतुल्य —सदस्य
3. समूह "क" अधिकारी जो विभाग
से संबंधित नहीं —सदस्य

टिप्पणी :—उपर्युक्त से बाहरी अनुसूचित जाति
या अनुसूचित जनजाति से नाम निर्देशित एक
सदस्य होना चाहिए।

[फा. सं. बी/75002/आर आर/सामान्य/गैर-औद्योगिक/सी एस सी सी/503/रक्षा (नि.)]

आर.के. शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मिलिट्री इंजीनियर सेवा (गैर औद्योगिक समूह III और समूह IV पद) भर्ती नियम 1971 का.नि.आ. 309 तारीख 10 अगस्त 1971 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 16th July, 2004

S.R.O. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in supersession of Military Engineer Service (Non-Industrial Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971, in so far as they relate to the posts of Khansama Chowkidar, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of (Khansama Chowkidar) in the Military Engineer Services, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Military Engineer Services (Khansama Chowkidar), Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and Scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of the pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, Educational and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30, of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Khansama Chowkidar	141* (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial Non-Industrial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable
Age Limit for direct recruits			Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7			8		9
18 to 25 years 1. Relaxable for Govt Servants in accordance with the instructions or orders issued by Central Govt. from time to time. 2. Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time. 3. Relaxable cumulatively with any other age relaxation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes. 4. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Ladakh Division of J&K State, Lahul and Spiti district and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). 5. In respect of posts the appointments to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.			Essential :— Should be minimum Matric pass. Should have good physique. Should be conversant with duties of Chowkidar. Should be expert in cooking, and making vegetarian and non-vegetarian dishes. Should be conversant with the modern electrical and other gadgets used in Kitchens/Cook houses. Should be aware of hygiene and antilfly precautions while cooking the food. Desirable :— One year experience in appropriate trade.		Not applicable
Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/absorption & per cent of the posts to be filled by various methods.		In case of Recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.		
10	11		12		
Two years	100% by direct recruitment.		Not applicable		

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'D' Departmental Promotion Committee at Commander Works Engineer level (for confirmation) Consisting of :

Not applicable

- (1) Commander Works Engineer or his nominee not below the rank of Executive Engineer—Chairman
- (2) Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer/Barrack Stores Officer or equivalent—Member
- (3) Group 'A' officer not connected with the department—Member

Note : Out of above one member shall be nominated from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

[F. No. B/75002/RR/Gen/Non-Ind/CSCC/503/D (Appts)]

R. K. SHARMA, Under Secy.

Foot Note :—The Recruitment Rules, 1971 were published vide S.R.O. 309 dated 10th August, 1971.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2004

का०नि०आ० 117.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में सेना मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के अंतर्गत आने वाले क्रमशः 17 पर्वतीय खंड, मार्फत 99 सेना डाक घर और छावनी परिषद कार्यालय, खड़की को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[सं. 1 (1)/2000-रक्षा (रा. भा. 1)]

पी.के. रस्तोगी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 23rd July, 2004

S. R. O. 117.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Headquarters 17 Mountain Division C/o 99 A.P.O. and Office of the Cantonment Board, Kirkee under the Army Headquarters and Directorate General of Defence Estates respectively, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi.

[No. 1 (1)/2000-D (OL-I)]

P. K. RASTOGI, Jt. Secy.